

Printed from

नवभारत टाइम्स

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

खुशखबरी : गाजियाबाद में भी खुलेगा आईआईआईटी

5 Feb 2011, 0400 hrs IST

- एनसीआर समेत देश-विदेश के स्टूडेंट बनाएंगे यहां अपना कैरियर

- हाईटेक सिटी के 100 एकड़ क्षेत्र में इंस्टिट्यूट खोलने की तैयारी

संजय श्रीवास्तव॥ गाजियाबाद

एजुकेशनल हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका गाजियाबाद जल्द ही एक और मील का पत्थर पार करने जा रहा है। यहां देश का प्रतिष्ठित आईआईआईटी (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलजी) खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एनएच-24 पर बन रहे हाई टेक सिटी में 100 एकड़ जमीन मिलने की उम्मीद है। इसके लिए जीडीए भी इंस्टिट्यूट की मदद कर रहा है। इंस्टिट्यूट के खुलने से दिल्ली-एनसीआर और देश भर ही नहीं विदेशों के भी स्टूडेंट अपना कैरियर बनाने यहां आएंगे।

एनसीआर में आईआईआईटी खोलने के लिए पिछले काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए आईआईआईटी ने गौतमबुद्धनगर स्थित महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी संपर्क किया था। हालांकि इंस्टिट्यूट के संचालक इसे दिल्ली से सटे क्षेत्र में खोलना चाह रहे थे। जीडीए सूत्रों के अनुसार एनएच-24 किनारे हाईटेक सिटी का क्षेत्र इंस्टिट्यूट के संचालकों को पसंद है। इस क्षेत्र में हाईटेक सिटी करीब 9 हजार एकड़ में बसाई जा रही है। यदि यहां आईआईआईटी का सेंटर यहां खुल जाता है तो हाईटेक सिटी की भी उपयोगिता में वृद्धि हो जाएगी।

इस संबंध में जीडीए वीसी एन. के. चौधरी ने भी आईआईआईटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की। इसके बाद उन्होंने हाईटेक सिटी के बिल्डर से भी बातचीत की। हाईटेक सिटी के बिल्डर भी इस इंस्टिट्यूट के लिए 100 एकड़ भूमि देने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हाईटेक सिटी इस संबंध में फैसला ले लेगा। आईआईआईटी से एनसीआर समेत देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों के उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, जो आईटी सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आईआईआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस यहां भी अपनाया जाएगा। सीबीएसई की ओर से कंडक्ट होने वाले एआई ट्रिपल ई एंट्रेंस एग्जाम से स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। इंस्टिट्यूट में वीटेक, एमटेक व डॉक्टरेट लेवल के कोर्स होंगे। चूंकि इलाहाबाद स्थित इंस्टिट्यूट में साइबर क्राइम से संबंधित कोर्स को पढ़ाया जा रहा है, इससे पूरी उम्मीद है कि यदि साइबर लॉ एंड इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी का कोर्स शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स की पहली पसंद यही कोर्स होगा।

इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।

इस आर्टिकल को ट्वीट करें।

देश-दुनिया की खबरें विडियो में। देखने के लिए क्लिक करें।

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)Copyright © 2011 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768